



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 28 पटना, बुधवार, 21 आषाढ़ 1945 (श0)
12 जुलाई 2023 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-10
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	11-11
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	12-13
पूरक	---
पूरक-क	14-15

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

30 जून 2023

सं० 02स्था०-62/2022-1585/वि०स०।-सुश्री नेहा भारती, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना जो वेतन स्तर-09 में प्रतिमाह अंके-54,700/-रूपये वेतन पाती हैं, को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक-1692(22), दिनांक-09.06.2023 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230, 240(क) एवं 248 (क) के अनुसरण में दिनांक-31.05.2023 से 16.06.2023 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-17.06.2023 एवं 18.06.2023 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके पश्चात इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-37 दिनों का अवकाश शेष है।

आदेश से,

उमा शंकर यादव, अवर सचिव।

19 जून 2023

सं० 2स्था०-236/2021-1461/वि०स०।-वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार, पटना से प्राप्त पत्रांक-1699(22), दिनांक-09.06.2023 के आलोक में श्री प्रभात कुमार, जनसम्पर्क पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-240 एवं 248 (क) के तहत दिनांक-29.05.2023 से 09.06.2023 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-10.06.2023 एवं 11.06.2023 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है। अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-42 दिनों का अवकाश शेष है।

आदेश से,

उमा शंकर यादव, अवर सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

6 जून 2023

सं० 1/एल०-41/2003-सा०प्र०-10656—श्री (डॉ०) एन० सरवण कुमार, भा०प्र०से० (बी एच:2000), सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को विभागीय अधिसूचना संख्या-1/एल०-41/2003-सा०प्र०-6277 दिनांक 03.04.2023 द्वारा दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 30.05.2023 तक कुल 60 (साठ) दिनों के लिए स्वीकृत चिकित्सा अवकाश की निरंतरता में अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन उन्हें (श्री कुमार को) दिनांक 31.05.2023 से 14.06.2023 तक कुल 15(पन्द्रह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जगदीश कुमार, उप-सचिव।

7 जून 2023

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-10764—श्री चैतन्य प्रसाद, भा०प्र०से० (1990), अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री प्रसाद अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे तथा अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-10765—श्री के० के० पाठक, भा०प्र०से०(1990), अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान—बिपार्ड, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री पाठक अगले आदेश तक महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान—बिपार्ड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-10766—श्री प्रत्यय अमृत, भा०प्र०से०(1991), अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-10767—श्री (डॉ०) एस. सिद्धार्थ, भा०प्र०से०(1991), मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सिद्धार्थ अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे तथा अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-10768—श्री दीपक कुमार सिंह, भा०प्र०से०(1992), अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-10769—श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा, भा०प्र०से० (1992), अपर मुख्य सचिव—सह—खान आयुक्त, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य महिला एवं बाल विकास निगम, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्रीमती बम्हरा अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी तथा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य महिला एवं बाल विकास निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगी।

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-10770—श्री परमार रवि मनुभाई, भा०प्र०से०(1992), अपर मुख्य सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव—सह—खान आयुक्त, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री परमार रवि मनुभाई अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-10771—श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा०प्र०से० (1995), प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, पटना/जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री चौधरी अगले आदेश तक प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, पटना/जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे तथा प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-10772—श्रीमती विजयलक्ष्मी एन०, भा०प्र०से० (1995) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के उपरान्त पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-10773—श्री (डॉ०) बी. राजेन्द्र, भा०प्र०से०(1995), प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—प्रधान सचिव, जन शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना) अगले आदेश तक प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-10774—श्री एन० सरवन कुमार, भा०प्र०से० (2000) (सम्प्रति उपार्जित अवकाश पर) को अगले आदेश तक सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री कुमार अगले आदेश तक अध्यक्ष, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-10775—श्री संजय कुमार अग्रवाल, भा०प्र०से० (2002), सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री अग्रवाल अगले आदेश तक सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे तथा सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

3. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री पंकज कुमार पाल, भा०प्र०से० (2002), सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना उन्हें प्रदत्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-10776—श्रीमती बन्दा प्रेयषी, भा०प्र०से० (2003), सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना / जॉच आयुक्त,

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्रीमती प्रेयषी अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य महिला एवं बाल विकास निगम, पटना/जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी तथा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगी।

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-10777—श्री के० के० पाठक, भा०प्र०से० (1990) का अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के पद से स्थानांतरण के फलस्वरूप, **श्री विनोद सिंह गुजियाल, भा०प्र०से० (2007)**, सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—निबंधन महानिरीक्षक—सह—उत्पाद आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना /अपर महानिदेशक, बिपार्ड, पटना) अगले आदेश तक मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-10778—डॉ० आशिमा जैन, भा०प्र०से० (2008) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के उपरान्त पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-10779—श्रीमती प्रतिभा रानी, भा०प्र०से० (2018) (मातृत्व अवकाश से वापसी के उपरान्त पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
जगदीश कुमार, उप—सचिव।

11 जून 2023

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-11005—श्री के. संधिल कुमार, भा०प्र०से० (बी एच : 1996), सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-11006—श्री अभय कुमार सिंह, भा०प्र०से० (बी एच : 2004), सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, कम्पेड, पटना) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-11007—श्री प्रभाकर, भा०प्र०से० (एस. के. : 2007), प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य संचरण कंपनी लिमिटेड, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, बिहार राज्य योजना पर्सद, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-11008—श्री शीर्षत कपिल अशोक, भा०प्र०से० (बी एच : 2011), महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—अपर सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-11009—श्री मिथिलेश मिश्र, भा०प्र०से० (बी एच : 2011), अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, मध्याह्न भोजन, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-11010—श्री आनन्द शर्मा, भा०प्र०से० (बी एच : 2013), निदेशक, पंचायती राज, बिहार, पटना अगले आदेश तक अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-11011—श्री आदित्य प्रकाश, भा०प्र०से० (बी एच : 2014), अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री प्रकाश अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य संचरण कंपनी लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-11012—श्री विवेक रंजन मैत्रोय, भा०प्र०से० (बी एच : 2017), निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
जगदीश कुमार, उप—सचिव।

12 जून 2023

सं० 1/पी-1001/2023-सा०प्र०-11013—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या—11006 दिनांक 11.06.2023 द्वारा श्री अभय कुमार सिंह, भा०प्र०से० (बी एच : 2004), सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, कम्पेड, पटना) को प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

2. उपर्युक्त अधिसूचना संख्या—11006 दिनांक 11.06.2023 में परिवर्तन करते हुए श्री अभय कुमार सिंह को प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के स्थान पर अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
जगदीश कुमार, उप—सचिव।

13 जून 2023

सं० 1/एल०-65/2000-सा०प्र०-11200—श्री नर्मदेश्वर लाल, भा०प्र०से० (बी एच:1998), प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-1/एल०-65/2000-सा०प्र०-4716 दिनांक 07.03.2023 द्वारा दिनांक 24.04.2023 से 25.05.2023 तक कुल 32 (बत्तीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदत्त है।

2. श्री लाल से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में दिनांक 27 एवं 28 मई, 2023 के सार्वजनिक/साप्ताहिक अवकाशों का पश्च लम्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ आलोच्य विभागीय अधिसूचना संख्या-4716 दिनांक 07.03.2023 द्वारा दिनांक 25.05.2023 तक स्वीकृत अवकाश को दिनांक 26.05.2023 (अर्थात् 32 के स्थान पर कुल 33-तैंतीस दिनों के लिए) तक विस्तारित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, विशेष सचिव।

14 जून 2023

सं० 1/अ०-1003/2022-सा०प्र०-11301—श्री तरनजोत सिंह, भा०प्र०से०(2017), नगर आयुक्त, नालंदा, बिहार शरीफ को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन बाली (इंडोनेशिया) की वैयक्तिक व्यय पर निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 04.08.2023 से 13.08.2023 तक कुल 10 (दस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की एक्स-इंडिया लीव के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, विशेष सचिव।

14 जून 2023

सं० 1/अ०-1018/2022-सा०प्र०-11302—श्री कुमार गौरव, भा०प्र०से०(2017), नगर आयुक्त, दरभंगा को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 28.08.2023 से 09.09.2023 तक कुल 13 (तेरह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

साथ ही, दिनांक 28.08.2023 से 08.09.2023 तक कुल 12 (बारह) दिनों की आलोच्य उपार्जित छुट्टी का वैयक्तिक व्यय पर इंग्लैण्ड एवं स्विट्जरलैण्ड की निजी विदेश यात्रा हेतु एक्स-इंडिया लीव के रूप में उपभोग करने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, विशेष सचिव।

19 जून 2023

सं० 1/पी०-1005/2013-सा०प्र०-11688—राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी-श्री सतीश चन्द्र झा , आई. पी. एण्ड टी. ए. एफ. एस. (98), विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की राज्य प्रतिनियुक्ति अवधि को दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति से दिनांक-30.08.2023 के बाद दिनांक-31.08.2023 से दिनांक 30.08.2025 तक विस्तारित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, विशेष सचिव।

19 जून 2023

सं० 1/एल०-015/2000-सा०प्र०-11689—श्रीमती सफीना ए०एन०, भा०प्र०से० (बी एच:1997), प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को विभागीय अधिसूचना संख्या-1/एल०-015/2000-सा०प्र०-9070 दिनांक 12.05.2023 द्वारा दिनांक 15.05.2023 से दिनांक 14.06.2023 तक कुल 31 (इकतीस) दिनों के लिए स्वीकृत शिशु देखभाल छुट्टी की निरंतरता में अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन उन्हें दिनांक 15.06.2023 से 02.07.2023 तक कुल 18(अठारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में मो० सोहैल, भा०प्र०से० (2007), सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग पूर्ववत् बने रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, विशेष सचिव।

आदेश

21 जून 2023

सं० 1/सी०-1003/2021-सा०प्र०-11914—भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत बैच वर्ष, 2020 के निम्नलिखित पदाधिकारी (जिन्होंने परीक्षावधि को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है तथा जिनकी सेवाएं भारत सरकार द्वारा सम्पुष्ट कर दी गई हैं) को उनके नाम के सामने भूतलक्षी प्रभाव से अंकित तिथि से द्वितीय एवं तृतीय वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.	पदाधिकारी का नाम / पदनाम	वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु नियत तिथि	निर्धारित विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की तिथि	द्वितीय वेतनवृद्धि की तिथि	भा.प्र.से.(वेतन)नियमावली, 2016 के नियम 10 के तहत वास्तविक लाभ के साथ द्वितीय एवं तृतीय वेतनवृद्धि की अनुमान्यता की तिथि
1	श्री अभिषेक पलासिया, (2020), अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालन्दा	वर्ष की पहली जुलाई	03.03.2023	01.07.2022 (वैचारिक निर्धारण)	03.03.2023
2	श्री प्रदीप सिंह (2020), अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर	वर्ष की पहली जुलाई	18.03.2023	01.07.2022 (वैचारिक निर्धारण)	18.03.2023
3	श्री श्रेष्ठ अनुपम (2020), अनुमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी सदर	वर्ष की पहली जुलाई	27.02.2023	01.07.2022 (वैचारिक निर्धारण)	27.02.2023
4	श्री श्रीकान्त कुण्डलिक खाण्डेकर (2020), अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर, पटना	वर्ष की पहली जुलाई	18.03.2023	01.07.2022 (वैचारिक निर्धारण)	18.03.2023
5	सुश्री अनुपमा सिंह (2020), अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा, पश्चिम चम्पारण	वर्ष की पहली जुलाई	27.02.2023	01.07.2022 (वैचारिक निर्धारण)	27.02.2023

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 03.10.2022 की कंडिका-3(ii) के अनुसार संबंधित पदाधिकारियों को द्वितीय वेतनवृद्धि परीक्षा पास किए जाने की तिथि से वास्तविक लाभ के साथ तथा वेतनवृद्धि की अनुमान्य तिथि से वैचारिक रूप से प्रदान की जाएगी। उक्त परिपत्र की कंडिका-3(iii) के अनुसार तृतीय वेतनवृद्धि विभागीय परीक्षा पास किए जाने की तिथि से ही देय होगी तथा ठीक अगले वर्ष (जिसमें तृतीय वेतनवृद्धि सामान्य रूप से दी जाएगी) में वेतनवृद्धि नहीं मिलेगी। संबंधित पदाधिकारियों ने विभागीय परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्णता प्राप्त की है। नियमानुसार उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01.07.2022 से वैचारिक निर्धारण के साथ द्वितीय तथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने की तिथि से वास्तविक लाभ के सहित तृतीय वेतनवृद्धि अनुमान्य होगी।

3. संबंधित पदाधिकारी को भूतलक्षी प्रभाव से तृतीय वेतनवृद्धि की आलोच्य स्वीकृति के फलस्वरूप, वर्ष, 2023 में वेतनवृद्धि देय नहीं होगी तथा चौथी वेतनवृद्धि पंचांग वर्ष, 2024 में वेतनवृद्धि के लिए नियत तिथि से देय होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, विशेष सचिव।

अधिसूचनाएं

21 जून 2023

सं० 1/पी०-1002/2017-सा०प्र०-11915—श्री रवीन्द्र नाथ राय, आई.आर.एस.ई. (95) (राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत भारतीय रेल अभियंत्रण सेवा के पदाधिकारी), सम्प्रति-विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-परामर्शी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना) द्वारा दिनांक 15.06.2023 को आलोच्य प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के उपरान्त दिनांक-15.06.2023 के अपराह्न से धारित पदों का परित्याग किए जाने के फलस्वरूप, वह दिनांक 15.06.2023 के प्रभाव से पैतृक विभाग/संस्थान (रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली) के लिए विरमित माने जाएंगे।

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के परिपत्रा संख्या-6/8/2009-ईएसटीटी(पे-II) दिनांक 17.06.2010 के प्रावधान एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1/पी०-10/2009 (खंड-2), सा०प्र०-11176 दिनांक-03.08.2015 में निहित सदृश प्रावधान के तहत श्री रवीन्द्र नाथ राय को दिनांक-16.06.2023 से 60 दिनों की पदावधि (उपार्जित) छुट्टी की स्वीकृति भी उपर्युक्त संदर्भ में प्रदान की जाती है। छुट्टी की समाप्ति के उपरान्त श्री रवीन्द्र नाथ राय, आई.आर.एस.ई. (95) द्वारा पैतृक विभाग/संस्थान में योगदान दिया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, विशेष सचिव।

26 जून 2023

सं० 1/अ०-12/2011-सा०प्र०-12248—श्री मनोज कुमार, भा०प्र०से० (बी एच: 2007), आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां (अतिरिक्त प्रभार- आयुक्त, कोसी प्रमंडल, सहरसा) को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-5, 10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 25.06.2023 के सार्वजनिक/साप्ताहिक अवकाश का पूर्व लग्न (प्री-फिक्स) तथा दिनांक 16.07.2023 के सार्वजनिक/ साप्ताहिक अवकाश का पश्च लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 26.06.2023 से 15.07.2023 तक कुल 20 (बीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में जिला पदाधिकारी, पूर्णियां आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां एवं जिला पदाधिकारी, सहरसा आयुक्त, कोसी प्रमंडल, सहरसा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, विशेष सचिव।

26 जून 2023

सं० 1/अ०-1007/2020-सा०प्र०-12249—श्री सौरभ सुमन यादव, भा०प्र०से० (बी एच:2019), उप विकास आयुक्त, कटिहार को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 28.06.2023 से 06.07.2023 तक कुल 09 (नौ) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री यादव की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में निदेशक, डी०आर०डी०ए०, कटिहार रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, विशेष सचिव।

3 जुलाई 2023

सं० 1/पी-1002/2023-सा०प्र०-12511—श्री तुषार सिंगला, भा०प्र०से० (बी एच : 2015), संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जगदीश कुमार, उप-सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

20 जून 2023

सं० ग्रा०वि०-R-503/31/2022-Section-14-RDD-RDD-1851500—श्री शशि प्रकाश, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहवाड़ा (दरभंगा) के विरुद्ध पंचायत आम निर्वाचन, 2016 में उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, गैर जिम्मेदार आचरण, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली-2006 के प्रावधानों के प्रतिकूल कार्य करने के आरोपों पर उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-791 दिनांक-25.02.2022 द्वारा जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-318 दिनांक-10.02.2022 से गठित आरोप पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया।

प्राप्त आरोप पत्र पर विभागीय पत्रांक-1035753 दिनांक-28.06.2022 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

श्री शशि प्रकाश के विरुद्ध धारित आरोपों की वृहत जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-83/सी० दिनांक 03.08.2022 द्वारा इन्हें निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

श्री शशि प्रकाश द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 02.09.2022 के समीक्षोपरांत विभाग द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 (6)(ग) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं०-1402193 दिनांक-29.11.2022 द्वारा इन्हें विभागीय कार्यवाही के अधीन रखते हुए निलंबन से मुक्त किया गया।

श्री प्रकाश के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-1403861 दिनांक-29.11.2022 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रकाश के विरुद्ध आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(3) के तहत विभागीय पत्रांक-143874 दिनांक-14.12.2022 द्वारा श्री प्रकाश को संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी।

तत्संबंध में श्री शशि प्रकाश द्वारा आवेदन दिनांक-16.01.2023 द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

श्री शशि प्रकाश के विरुद्ध आरोप, संचालन पदाधिकारी का मंतव्य एवं आरोपित पदाधिकारी के लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा से पंचायत चुनाव 2016 में अरई विरदीपुर पंचायत के वार्ड सं0-02 के पंच एवं वार्ड सदस्य पद पर श्री प्रकाश द्वारा एक-एक नामांकन मान कर निर्विरोध परिणाम घोषित करने की अनियमितता प्रमाणित पाई गई ।

अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री शशि प्रकाश, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहवाड़ा, दरभंगा सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत, मुख्यालय ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध पंचायत आम निर्वाचन-2016 में बरती गयी उक्त अनियमितता के लिए इनके विरुद्ध "वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर पाँच वर्ष की अवधि के लिए अवनति का दंड । ऐसी अवधि के दौरान सरकारी सेवक वेतन वृद्धि अर्जित नहीं करेगा । शास्ति की अवधि की समाप्ति के बाद भविष्य की वेतन वृद्धियाँ तभी अनुमान्य होगी जब इस अवधि में इनका गोपनीय अभ्युक्ति उत्कृष्ट कोटि का रहेगा ।" की शास्ति अधिरोपित की जाती है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नन्द किशोर साह, संयुक्त सचिव।

23 जून 2023

सं0 ग्रा0वि0- R-503/7/2021-SECTION-14 RDD-RDD-1860233—श्री दीपक कुमार कौशिक, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घाटकुसुम्भा (शेखपुरा) सम्प्रति संकाय (बिपार्ड), फुलवारीशरीफ, पटना के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक-1124 दिनांक-10.09.2021 के द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ ।

आरोप पत्र में गठित आरोप एवं श्री कौशिक से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत अधिसूचना संख्या-1573718 दिनांक-15.02.2023 द्वारा श्री दीपक कुमार कौशिक, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घाटकुसुम्भा (शेखपुरा) सम्प्रति संकाय (बिपार्ड), फुलवारीशरीफ, पटना को "संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने का दंड" अधिरोपित किया गया ।

अधिरोपित दंड के विरुद्ध श्री कौशिक द्वारा दिनांक-23.03.2023 को पुनर्विलोकन आवेदन समर्पित किया गया। पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कौशिक के अभ्यावेदन में कोई नया ऐसा महत्वपूर्ण साक्ष्य या तथ्य नहीं है जिसके आलोक में पारित आदेश को संशोधित किया जाय ।

अतः समीक्षोपरांत श्री दीपक कुमार कौशिक के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नन्द किशोर साह, संयुक्त सचिव।

23 जून 2023

सं0 ग्रा0वि0-14(कोशी)सु0-03/2019-1860284—श्री आर्य गौतम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुपौल (सुपौल) सम्प्रति संकाय सदस्य, बिपार्ड (गया) के विरुद्ध ग्राम पंचायत- गौठ बरुआरी, प्रखंड-सुपौल में संचालित योजना अभिकर्ता एवं आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं करने, आदेश की अवहेलना, कर्तव्य के प्रति लापरवाही, योजना का अनुश्रवण एवं निरीक्षण नहीं करने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक-408-2 दिनांक-28.05.2019 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री गौतम से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। जिला पदाधिकारी से प्राप्त आरोप पत्र एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-1507322 दिनांक-17.01.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर श्री गौतम का लिखित अभ्यावेदन प्राप्त है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री गौतम का लिखित अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि "यह दोष उनके प्रथम पदस्थापन तथा अनुभव की कमी के कारण है, उनकी कोई संलिप्ता प्रमाणित नहीं होता है।

अतः श्री आर्य गौतम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुपौल (सुपौल) सम्प्रति संकाय सदस्य, बिपार्ड (गया) को भविष्य में सचेष्ट रहने का निदेश देते हुए उन्हें आरोप मुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नन्द किशोर साह, संयुक्त सचिव।

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

28 जून 2023

सं० 01/स्था०राज०-120/2015-561—गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत कार्यरत बिहार ईख सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित कार्यालय में स्थानान्तरित करते हुए कॉलम-6 में अंकित कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक दिया जाता है:-

क्रमांक	नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार	नव पदस्थापन	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5	6
1	श्री जय प्रकाश नारायण सिंह/सहायक ईखायुक्त	सहायक ईखायुक्त मुख्यालय	संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त, उ० बि० मुजफ्फरपुर/ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर।	“यथावत”	“यथावत”
2	श्री वेदव्रत कुमार/विशेष ईख पदाधिकारी	विशेष ईख पदाधिकारी, पटना।	ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल बेतिया।	“यथावत”	विशेष ईख पदाधिकारी गोपालगंज/ईख पदाधिकारी, गोपालगंज।
3	श्री रेमन्त झा/ईख पदाधिकारी,	ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय, दरभंगा।	विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज/ईख पदाधिकारी, गोपालगंज/पूर्णिया	ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल बेतिया।	—
4	श्री श्रीराम सिंह, ईख पदाधिकारी,	ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल बेतिया।	—	ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल बेतिया।	—
5	श्री राहुल कुमार, ईख पदाधिकारी,	ईख पदाधिकारी, मोतिहारी।	—	“यथावत”	—
6	श्री कुमार कानन / ईख पदाधिकारी,	ईख पदाधिकारी, सिवान।	—	“यथावत”	गन्ना उद्योग विभाग मुख्यालय में प्रतिनियुक्त।

7	श्री चक्रपाणि नारायण दामोदर / ईख पदाधिकारी,	ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	—	“यथावत”	ईख पदाधिकारी, पूर्णियाँ / लहेरियास राय (दरभंगा)।
---	---	------------------------------	---	---------	--

2. पूर्व में निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझें जायें।
3. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।
4. प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार, अवर सचिव।

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

28 जून 2023

सं० 10/म०वि०नि०पा०घ०-02/23/1349—राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा तथा सशक्तिकरण के लिए बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति 2015 लागू की गई है। साथ ही बिहार राज्य के सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत की क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान लागू है जिसके फलस्वरूप सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में महिलाओं के नियोजन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

2. कामकाजी महिलायें, जिन्हें अपने 5 वर्ष अथवा उससे कम उम्र के बच्चों को कार्य स्थल पर रखने में असुविधा होती है, वैसे कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए कार्यस्थल परिसर अन्तर्गत पालना-घर संचालित किया जाता है ताकि कामकाजी महिलाएँ अपने बच्चों की आवश्यक मातृत्व संबंधी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर सकें।

3. पालना-घर का संचालन वैसे सरकारी संस्थानों/कार्यालयों यथा विद्यालय, महाविद्यालय तथा चिकित्सा महाविद्यालय अथवा अन्य सरकारी संस्थानों में किया जाता है जहाँ 25 एवं उससे अधिक महिलाएँ सरकारी पद पर नियोजित हैं। प्रत्येक पालना-घर में 10 बच्चों के लिए खिलौना एवं खेलने के अन्य साधनों के साथ-साथ बच्चों के देख-भाल तथा मनोरंजन का प्रावधान किया गया है।

4. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत पालना घर के संचालनार्थ प्राप्त होने वाली राशि का व्यय महिला एवं बाल विकास निगम के माध्यम से किया जायेगा।

5. बजट शीर्ष माँग संख्या-51 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष “2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02—समाज कल्याण, 103—महिला कल्याण, 0110—मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना” एवं “2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02—समाज कल्याण, 789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0108—मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना” विपत्र कोड-51—2235021030110 तथा विपत्र कोड-51—2235027890108 के तहत उपलब्ध बजटीय उपबंध के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

6. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत पालना घर के संचालनार्थ प्रतिवर्ष आवर्ती मद में ₹3,16,440 (तीन लाख सोलह हजार चार सौ चालीस) तथा अनावर्ती मद में ₹5,36,428 (पाँच लाख छत्तीस हजार चार सौ अट्ठाइस) अर्थात् कुल ₹8,52,868 (आठ लाख बावन हजार आठ सौ अडसठ) की दर से प्रति पालना घर के संचालन हेतु व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. प्रस्ताव में संचिका सं०-10/म०वि०नि०पा०घ०-02/23 के टिप्पणी पृ० 20/टि० पर दिनांक-27.06.2023 को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विश्वासभाजन,
कुमारी सीमा, उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 17—571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और
नियम आदि।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

(शुद्धि-पत्र)

12 जून 2023

सं० 1/पी-1002/2023-सा0प्र0-11097—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-11005-सह-पठित
ज्ञापांक-11012 दिनांक 11.06.2023 (जिसके द्वारा श्री के. सेंथिल कुमार, भा0प्र0से0 को सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद से स्थानांतरित
करते हुए सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है) की निर्गत संख्या को '11005' के स्थान पर '11005'A' पढ़ा
जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जगदीश कुमार, उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 17—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

सं० 801—मैं ऐश्वर्या धनराज पिता श्री राकेश कुमार निवास-शिवपुर, महेन्द्र, पोस्ट-महेन्द्र, थाना-सुल्तानगंज, जिला-पटना - 800006, (बिहार), शपथ पत्र सं०- 4613 तारीख 05.06.23. द्वारा यह घोषणा करती हूं कि अब मैं ऐश्वर्या से ऐश्वर्या धनराज के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी।

ऐश्वर्या धनराज।

No. 805—I, Manoranjan Kumar S/o—Om Prakash Narayan, R/o Village—Telhari, P.O.—Hazrat Sain, P.S.—Dhanarua, Distt.—Patna, Bihar—804451, India, have changed the name of my minor son NAVNEET, and he shall hereafter be known as NAVNEET KUMAR for all purposes vide affidavit No.-10 dated 22-05-2023.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Manoranjan Kumar.

सं० 806—मैं प्रियंबदा, पत्नी अंकित पाठक एवं पुत्री विनोद कुमार शर्मा, निवासी, विजय नगर (C-2A) हनुमान नगर थाना—कंकड़बाग, पटना की निवासी हूँ। एफिडेविट संख्या 4661/06.06.23 के द्वारा मैं घोषणा करती हूँ कि दिनांक 12.05.2023 को मेरी शादी अंकित पाठक, पुत्र—कृष्णा कुमार पाठक से हुई है। विवाह के पश्चात मेरे नाम के आगे पाठक उप नाम जुड़ गया है। प्रियंबदा तथा प्रियंबदा पाठक दोनों ही नाम मेरे अर्थात् एक ही व्यक्ति के हैं, भविष्य में सभी सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यों के लिए मैं प्रियंबदा पाठक के नाम से जानी जाऊंगी।

प्रियंबदा।

No. 806—I, **PRIYAMBDA**, w/o Ankit Pathak and D/o Vinod Kumar Sharma resident of C-2A, Vijay Nagar, Hanuman Nagar, P.S.—Kankarbagh, Patna is declaring with vide affidavit no. 4661/6-6-23 that I have married with Ankit Pathak S/O Krishna Kumar Pathak on 12-05-2023. After marriage Pathak surname is added. Priyambda & Priyambda Pathak is the name of mine and both the names are of same person. In future for all official and non-official purpose I will be known as Priyambda Pathak.

Priyambda.

No. 812—I Veena Kumari W/o-Rajeev Ranjan, R/o-Nageshwar Colony, Bakarganj, Patna-800004 declare vide affidavit no. 223 date 10.06.2023 that in my Aadhar Card No. 797862886068 my name is mentioned as VEENA RANJAN. The correct name is VEENA KUMARI and I shall be known as VEENA KUMARI for all future purposes.

Veena Kumari.

No. 813—I Sameer Shandilya, S/O-Ashok Kumar Thakur, R/O-Gamhariya Village, Narayanpur Post-Patahi Motihari, East Champaran, declared vide affidavit No. 867 dated 19/06/2023 that in my 12th std. As well as Graduation Marksheets and Certificate/Degree is wrongly mentioned as Sameer Sandilya. Although, my correct name is Sameer Shandilya for all purposes.

Sameer Shandilya.

सं० 814—मैं उदय शंकर (UDAY SHANKAR) पिता राजेन्द्र राय, पता-ग्राम कुलेशराडीह, पो०-छितरौली रामपुर मनी, मुजफ्फरपुर, बिहार-843119 शपथ पत्र संख्या 2184 दिनांक 20/06/2023 द्वारा सूचित करता हूं कि मेरा पुत्र ऋषव (RISHAV) अब से ऋषव शंकर (RISHAV SHANKAR) के नाम से जाना व पहचाना जायेगा। मेरा आधार नं० - 6058 0880 8117 है।

उदय शंकर (UDAY SHANKAR).

No. 815—I, RAJESH kumar S/o Vednarayan Prasad Permanent Add. Vill.-Barhanpura PO-Ashari PS-Hilsa Dist.-Nalanda-801302 Affidavit No. 4485 Dated 01.06.2023 in my CDC (CDC No- MS15047) my name is wrongly mentioned as V. P. Rajesh Kumar. My Correct Name is Rajesh kumar.

RAJESH kumar.

No. 816—I, Suraj Kumar Rajak, S/o Ashok Kumar Rajak, Resident of Sandalpur Akhara, PO-Mahendru, PS-Bahadurpur, Dist-Patna-800006 do hereby solemnly affirm and declare that my name has to be changed from Suraj Kumar Rajak to Suraj Kumar. Affidavit no. 79 dated 27.04.23.

Suraj Kumar Rajak.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 17—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)—01—09/2021—5762

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

6 जुलाई 2023

श्री सत्येन्द्र कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, बाढ़ के विरुद्ध उनके आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना में पदस्थापन के दौरान दिनांक 03.03.2021 को जिलाधिकारी, पटना के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना में की गई औचक छापेमारी में 02 मोबाईल फोन, 01 मोबाईल सिम एवं 02 पंजियों की बरामदगी, जिला प्रशासन की टीम के कारा पर पहुँचने पर 30 मिनट विलम्ब से कारा का गेट खोले जाने तथा निरीक्षण में पाई गई अन्य कतिपय अनियमितता एवं दिनांक 07.03.2021 को कारा प्रशासन द्वारा की गई छापेमारी में 01 मोबाईल फोन एवं 01 मोबाईल चार्जर तथा दिनांक 08.03.2021 को कारा महानिरीक्षक के नेतृत्व में की गई औचक छापेमारी में पुनः 02 मोबाईल फोन, 01 पेन ड्राईव एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी तथा कारा के अन्दर से बंदियों द्वारा वीडियो बनाकर वायरल किये जाने की घटना में बरती गई लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2418 दिनांक 10.03.2021 द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना को निलंबित किया गया तथा निलंबनावस्था में उनका मुख्यालय केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ निर्धारित किया गया। उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6568 दिनांक 30.07.2021 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 13655/सा0प्र0, दिनांक 15.12.2011 की कंडिका-2(1)(ग) के प्रावधान के आलोक में आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना के आदेश ज्ञापांक 775/स्था0, दिनांक 01.09.2021 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में नियमानुसार जाँच सम्पन्न कर जाँच अभिलेख अनुशासनिक प्राधिकार को उपलब्ध कराने हेतु जाँच का कार्य संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना को हस्तांतरित किया गया।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के फलाफल के पश्चात् प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श प्राप्त कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-301 दिनांक-11.01.2023 द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार के विरुद्ध निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया :-

“संचयी प्रभाव से चार (04) वेतनवृद्धियों पर रोक का दंड”।

4. उपरोक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री सत्येन्द्र कुमार द्वारा दायर पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को सम्यक् विश्लेषणोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3456 दिनांक 26.04.2023 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

5. श्री सत्येन्द्र कुमार दिनांक-10.03.2021 से दिनांक-10.01.2023 तक निलंबित रहे। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के निलंबन अवधि में भुगतये राशि के विनिश्चयन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-11 (5) के विहित प्रावधान के आलोक में विभागीय ज्ञापांक-1586 दिनांक-21.02.2023 द्वारा उनसे साठ दिनों के अन्दर अभ्यावेदन की मांग की गयी।

6. तद्आलोक में श्री सत्येन्द्र कुमार, अधीक्षक, उपकारा, बाढ़ द्वारा पत्रांक-2188 दिनांक-27.05.2023 के माध्यम से अपना अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना की भौगोलिक संरचना को नजरअंदाज कर 04 मोबाईल फोन की बरामदगी को उनके आरोप पत्र का पहला मुख्य आधार बनाया गया, जबकि मोबाईल की बरामदगी तीन अवसरों पर की गयी थी। श्री कुमार का कहना है कि संचालन पदाधिकारी ने भी अपने

निष्कर्ष में लिखा है कि आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर आवासीय परिसर के बीच में अवस्थित है, जिसके चारों तरफ कई बहुमंजिले इमारतें हैं, जिसके बालकोनी अथवा छत से कोई भी प्रतिबंधित सामग्री विशेषतः मोबाईल को कारा में आसानी से फेंका जा सकता है। इस तथ्य से मुख्यालय भी सहमत है और इससे संबंधित समाचार कई समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद संचालन पदाधिकारी द्वारा इस कंडिका को अंशतः प्रमाणित माना गया है। कारा के मुख्य द्वार को विलंब से खोलने के आरोप को अंशतः प्रमाणित पाये जाने के संबंध में उनका कहना है कि अधीक्षक को इससे कोई लेना-देना नहीं है तथा इसमें मुख्य भूमिका तत्कालीन उपाधीक्षक की थी।

श्री कुमार का अपने अभ्यावेदन में कहना है कि आरोप पत्र में जिन चार साक्षियों की सूची वर्णित है, उन चारों साक्षियों का कोई लिपिबद्ध बयान विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं कराया गया, जिससे उनको न तो उन गवाहों से परीक्षण का मौका मिला, न प्रतिपरीक्षण का और न ही Re-examination का। उपरोक्त वर्णन के आधार पर श्री सत्येन्द्र कुमार द्वारा निलंबन अवधि के भुगतये वेतन और भत्ते का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

7. श्री सत्येन्द्र कुमार के अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त स्पष्ट है कि श्री कुमार के विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श प्राप्त कर विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुए दण्ड अधिरोपित किया गया है। श्री कुमार के विरुद्ध उनके आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना में पदस्थापन के दौरान जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा एवं तत्कालीन कारा महानिरीक्षक द्वारा अलग-अलग तिथियों को कारा में की गई छापेमारी में मोबाईल फोन सहित अनेक प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी तथा कारा में व्याप्त घोर प्रशासनिक कुव्यवस्था से स्पष्ट है कि श्री कुमार अपने अधीनस्थ कर्मियों के कार्यों के पर्यवेक्षण में पूर्णतः विफल रहे हैं, जो उनकी प्रशासनिक अक्षमता का द्योतक है। कारा में प्रतिबंधित सामग्रियों के प्रवेश पर रोक लगाने एवं कारा में अपने स्तर से सघन तलाशी की कार्यवाई करने में श्री कुमार विफल रहे हैं, परिणामस्वरूप कारा के अन्दर से बंदियों द्वारा वीडियो बनाकर वायरल किया गया तथा बंदियों द्वारा कारा के भीतर से आपराधिक गतिविधियों का संचालन किया गया। जिला प्रशासन की टीम के कारा पर पहुँचने पर 30 मिनट विलम्ब से कारा गेट का खोला जाना, जिलाधिकारी, पटना द्वारा कारा के वार्डों के संबंध में श्री कुमार से जानकारी मांगे जाने पर उन्हें कारा के वार्डों की सामान्य जानकारी नहीं होना उनकी गंभीर प्रशासनिक विफलता, अधीनस्थों पर नियंत्रण में कमी तथा पदीय दायित्वों के निर्वहन में पूर्णतः विफलता एवं गंभीर अनुशासहीनता का द्योतक है।

श्री कुमार द्वारा अपने अभ्यावेदन में पुनः उन्हीं बातों को दोहराया गया है, जिसका उल्लेख उन्होंने पूर्व में अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में किया था। श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के विश्लेषणोपरान्त उसे स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया। तदोपरान्त बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से दण्ड प्रस्ताव पर परामर्श प्राप्त कर विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कुमार के विरुद्ध “संचयी प्रभाव से चार (04) वेतनवृद्धियों पर रोक का दंड” अधिरोपित किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री सत्येन्द्र कुमार का निलंबन औचित्यपूर्ण है। अतः उनका अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है।

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सत्येन्द्र कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, बाढ़ के निलंबन अवधि दिनांक-10.03.2021 से दिनांक-10.01.2023 तक के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-11 के उप नियम-7 एवं 8 के आलोक में निम्न आदेश पारित किया जाता है :-

“निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा तथा इस अवधि की गणना पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में की जायेगी।”

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 17—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>